

Sunbrella सीमित वारंटी। हम अपने कपड़े का ऐसी गारंटी के साथ समर्थन करते हैं जो उद्योग में सर्वोत्तम है: अपहोल्स्टरी, स्पेशियाल्टी कपड़ों और सजावटी शेड कपड़ों के लिए 5 वर्ष की सीमित वारंटी तथा शेड और मरीन कपड़ों के लिए 10 वर्ष की सीमित वारंटी।

5

वर्ष

की सीमित वारंटी

इस वारंटी में शामिल है

Sunbrella अपहोल्स्टरी के कपड़े
Sunbrella एलॉय
Sunbrella क्लेयरिटी
Sunbrella फंडामेंटल
Sunbrella प्लस
Sunbrella सुप्रीम
Sunbrella युनिटी

10

वर्ष

की सीमित वारंटी

इस वारंटी में शामिल है

Sunbrella शेड और मरीन कपड़े

1 नवंबर 2008 को प्रारंभ किए गए कार्यप्रदर्शन संबंधी सुधारों ने ग्लेन रैवेन को Sunbrella कपड़ों के लिए वारंटी की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी। 1 नवंबर 2008 या उसके बाद के इनस्टालेशनों के लिए, वारंटी के कवरेज की अवधि खरीद की मूल तारीख से 10 वर्ष है। ग्लेन रैवेन एक से लेकर आठ वर्षों के दौरान बिना किसी लागत के प्रतिस्थापन कपड़ा प्रदान करेगा। नौवें वर्ष में, ग्लेन रैवेन कपड़े की मूल लागत का 85% वापस करेगा, और दसवें वर्ष में, कपड़े की मूल लागत का 70% वापस करेगा।

यह वारंटी Sunbrella कपड़े के मूल खरीदकर्ता पर लागू होती है और धूप, फूँदी और वायुमंडल में मौजूद रसायनों सहित, सामान्य उपयोग और अरक्षितता अवस्थाओं से होने वाली रंग या मजबूती की हानि के कारण Sunbrella कपड़े के बेकार होने के प्रति रक्षा करती है।

यह वारंटी केवल Sunbrella कपड़े को ही कवर करती है। यह वारंटी सामान्य देखभाल और सफाई; दुरुपयोग या कुप्रयोग से नुकसान; अनुचित इनस्टालेशन; या कपड़े के प्रतिस्थापन से संबद्ध लागतों, जिसमें श्रम और इनस्टालेशन शामिल है, को कवर नहीं करती है। ग्लेन रैवेन का दायित्व स्पष्ट तौर पर इस वारंटी तक सीमित है। ग्लेन रैवेन दावे के लिए प्रस्तुत किए गए कपड़े का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ग्लेन रैवेन बेकार होने वाले कपड़े के स्थान पर नए समतुल्य कपड़े की आपूर्ति करेगा।